

May 21, 2021

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Ref: Indus Towers Limited (534816/ INDUSTOWER)

Sub: Publication of Notice for transferring equity shares of the Company to the DEMAT account of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of Notice for the attention of equity shareholders of the Company in respect of transfer of equity shares of the Company to the DEMAT account of IEPFA, published today i.e. May 21, 2021 in the following newspapers in accordance with the requirements of Section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016:

1. Mint in English; and
2. Hindustan in Hindi

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Indus Towers Limited
(formerly Bharti Infratel Limited)


Samridhi Rodhe
Company Secretary



Indus Towers Limited

(formerly Bharti Infratel Limited)

Domestic air traffic slows in April amid restrictions

Rhik Kundu
rhik.kundu@vemint.com
NEW DELHI

Indian domestic air passenger traffic fell sharply during April from the previous month because of the travel restrictions imposed by several states across the country in view of the second wave of covid-19 infections.

The recent rise in covid-19 cases is expected to further delay the revival of the sector. There were 5.72 million domestic air passengers in April, compared to 7.83 million in March, according to data from the Directorate General of Civil Aviation (DGCA).

The passenger load factor (PLF) of major scheduled commercial airlines was 52-70% in April, down from 64-75% in March. PLF measures capacity utilization of transport services, including airlines.

During April, IndiGo had a 53.9% market share and 58.7% PLF. It carried 3.08 million passengers. Air India's domestic PLF was 52% and it had a market share of 12%. The national carrier ferried 685,000 passengers.

SpiceJet carried 705,000 passengers during the month, registering a 70.8% PLF, and had a 12.3% market share, while GoAir carried 547,000 passengers, recording a 9.6% market share, and had a 65.7% PLF.

Vistara and AirAsia India carried about 311,000 and 355,000 passengers, respectively, during April. While Vistara reported a 5.4% market share and 54.6% PLF, AirAsia India reported a market share of 6.2% and 64% PLF.

MyLab gets ICMR approval for self-use covid testing kit

CoviSelf can be purchased for ₹250; testing will be monitored on MyLab's mobile phone app

Leroy Leo
leroy.ddd@vemint.com
NEW DELHI

MyLab Discovery Solutions on Thursday announced that it has received the Indian Council of Medical Research's (ICMR) approval for the country's first self-use rapid antigen test for covid-19, CoviSelf. The approval followed an advisory by the apex biomedical research agency late Wednesday, allowing the use of self-testing kits even as it cautioned against its indiscriminate use. The test can be purchased for ₹250 without a prescription from local pharmacies and online channel partners, the Pune-based company said in a statement. Testing will be monitored using MyLab's mobile phone application, through which users are advised to click a picture of the test strip after completing the procedure. *Mint* explains the modalities of the new self-testing kit and what it could mean in the battle against the pandemic.

When will this kit be available?
MyLab managing director Hasamukh Rawal said testing kits will be sold through chemists across India from next week. The kit will be priced at ₹250 per unit and can be bought without a prescription. The company is preparing a plan to distribute CoviSelf to every PIN code of the country. MyLab is also in discussions with e-commerce and e-pharmacy websites for the distribution of the kits while making sure it complies with existing regulations.

How does this kit work?
The kit comes with an instruction kit, a nasal swab, a pre-filled extraction tube, a test card and a biohazard bag. Unlike a nasopharyngeal swab used in RT-PCR



The self-use rapid antigen testing kits will be sold through chemists across India from next week. It can be bought without a prescription.

test that has to be inserted deep into the cavity, a nasal swab reduces the discomfort as it has to be inserted only 2-4 cm into each nasal cavity.

A user has to install the MyLab CoviSelf app to fill in credentials and then proceed with the test by inserting the swab into both nasal cavities to collect the sample and then conduct the test according to the instruction manual. A result will be available in 15 minutes.

A positive result is indicated by the appearance of a line at the "T" test line as well as the "C" control line, while negative results only have a "C" line. To make readings easier, the user can click a picture of the test result on the app.

A positive test result does not need a confirmatory test, but if the person

shows symptoms but still has a negative result, ICMR guidelines state that they should be re-tested with RT-PCR, the gold standard for covid-19 testing.

How will it affect the overall testing of covid-19?

The government allowed home tests to reduce the burden on laboratories, which had led to severe delays in covid-19 testing during the second wave. Laboratories are overburdened with mounting requests amid the surge of cases while also dealing with manpower crunch because of infected staff.

MyLab has said that it will be producing 7 million test kits per week, which is over three times the total number of tests conducted daily.

Since MyLab's application is centrally linked to the government's server, the test results, if uploaded by the user, will

also reflect in the national database, and the testing capacity may go up significantly.

What are the drawbacks of self-testing kits?

A potential drawback could be people testing positive may not report it on the app. This may exacerbate under-reporting of cases, which has already been shown by wide variations between the number of confirmed cases and seroprevalence in the first wave. When asked about concerns around lack of reporting, Rawal said people who report their positive results would be able to seek medical help, which would be an incentive to patients. But even now, patients often get medical help despite the lack of tests.

Another potential drawback is the lack of accuracy for antigen tests. According to ICMR's guidelines, a validation of rapid antigen test, like the CoviSelf test, requires that the test kit, in point of care settings, be accurate at least 50% of the times in identifying people with covid-19 (sensitivity) and 95% specificity—the times when identifying people without the disease.

However, experts said that the quick turnaround time for the tests makes it a good candidate to conduct mass testing for faster containment of the disease.

How are other countries using it?

The UK's NHS advises that people conduct a rapid home test twice a week to check if they have the virus, and if people test positive, they self-isolate to stop the virus from spreading. Rapid tests are advised for asymptomatic cases in the UK, according to the NHS website. If people are showing symptoms, then an RT-PCR test is used. The US Center for Disease Control advises people to get tested with any one of the test kits, including the rapid antigen tests at home, if they have symptoms of covid-19.

Bharat Biotech to produce 200 mn additional doses

Leroy Leo
leroy.ddd@vemint.com
NEW DELHI

Bharat Biotech International will ramp up its annual Covid-19 vaccine production capacity by an additional 200 million doses by producing the covid-19 vaccine at its subsidiary Chiron Behring's plant in Ankleshwar in Gujarat, it said on Thursday. The vaccine would be available from October-December, the Hyderabad-based vaccine maker said.

Bharat Biotech had already set up multiple production lines for Covaxin at two of its plants at Hyderabad and had also repositioned an animal vaccine manufacturing plant at Bengaluru owned by Biovet Pvt. Ltd, another firm that was co-founded by Bharat Biotech chairman and managing director Krishna Ella. The company expects to roll out increased doses from its Hyderabad and Bengaluru plants over the next three months.

The ramped up capacities across its Hyderabad and Bengaluru plants was 700 million per year. This is now expected to rise to about 900 million with the help of the Chiron Behring plant.

Chiron Behring was acquired by Bharat Biotech from GlaxoSmithKline in 2019. It was India's largest manufacturer of anti-rabies vaccines, which it sold under the brand Rabipur. After its acquisition, Bharat Biotech continued to produce the vaccine at the Ankleshwar plant, which it rebranded as Chiro-Rab.



The vaccines produced from Chiron Behring's plant in Gujarat would be available from third quarter of this fiscal.

On Thursday, Bharat Biotech said the company plans to produce 200 million doses of Covaxin annually at the facility, which is compliant with norms of good manufacturing practices and already produced inactivated vaccines on the 'vero cell' platform. 'Vero cells' are cells that isolated from the epithelium of kidney of African green monkeys and are used to culture the SARS-CoV-2, which is then killed and processed into a vaccine.

Bharat Biotech has also tied up with Indian Immunologicals, Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Ltd, and Haffkine Biopharmaceutical Corporation Ltd to produce Covaxin. Along with the three partners, Bharat Biotech is expected to produce about 100 million doses of Covaxin every month from now onwards. The monthly capacity will be scaled up in stages from 10 million at present to 20 million by next month, 60-70 million by August, and finally 100 million by September.

Chemists union says will shut stores till staff given vax on priority

Leroy Leo
leroy.ddd@vemint.com
NEW DELHI

More than 900,000 chemists across India have threatened to down shutters if their employees are not given covid-19 vaccines on priority similar to healthcare and front line workers such as security personnel.

"The All India Organization of Chemists and Druggists (AIOD), a nationwide organization of over 40 lakh chemists in India, may any time join the lockdown to protect and save

the lives of its members, as they were sidelined while considering vaccination priority," the association said in a statement on Thursday.

Chemists are not included among frontline workers even though they regularly come in contact with covid patients during the pandemic.

According to the AIOD, its members were not included among frontline workers despite the fact that they come

regularly in contact with covid-19 patients at their stores while providing medicines.

Since March last year, more than 650 chemists and pharmacists have lost their lives due to covid-19, the association said.

"But now we do not want to put our members at risk and therefore we demand that the government

vaccinate with priority all 4-5 lakh chemists and pharmacists and support staff, or we will

join the regular lockdown followed by other trade members," the association said.

A similar appeal was made by the Association of Indian Medical Device Industry (AIMDI) for employees at manufacturers of covid-19-related medical equipment.

AIMD forum coordinator Rajiv Nath on Wednesday wrote a letter to NITI Aayog member (health) V.K. Paul, who is also the chairman of the National Expert Group on Vaccine Administration for Covid-19 (NEGVA), for inclusion of staff at manufacturers of covid-19 related medical sup-

plies in the list of frontline workers and be vaccinated on priority, or at the very least, allow such expenses to be included in corporate social responsibility activities. Currently, only security personnel, municipal workers and revenue officials from the government are considered frontline workers. Healthcare and frontline workers as well as those over the age of 45 are considered high priority groups for covid-19 vaccinations as they are highest at risk of contracting the disease.

However, a number of professional groups such as chem-

ists, staff of medical devices and drug manufacturing industry, transportation workers and grocery store staff are not considered frontline workers by the Centre despite their jobs requiring being in close contact with people and being considered as essential services.

Although the situation has improved under the Centre's revised policy which allows vaccination of all adults of age 18 and above, while giving priority to high-risk groups, and also allows states more liberty to make their own list of priority groups.

Simplicity is the buzzword as brands go for a big makeover

Saumya Tewari
saumya.tg@vemint.com
NEW DELHI

The increasing online interaction with consumers has prompted several brands across product categories to undergo logo and identity makeovers with new taglines. The moves aim to establish deeper connect with consumers in the rapidly growing online world.

One of the latest to unveil a new visual identity is online grocery platform Grofers, which came out with a modification of its old logo. The orange colour has been retained, while the name of the company now appears in lower case. "The change is a reflection of this innately curious spirit that wants to collaborate, solve problems and stubbornly refuses to take no for an answer," Grofers said. Increasingly, brands are moving away from clutter and looking at clean and simple visual identities to appear more accessible, friendly and easy to remember in an over-connected digital world.

needed to be matched every day," Deshpande said.

No visual identity can now be designed without starting at the app icon or its presence on mobile phone. No positioning would be effective unless it can be encapsulated in a short hashtag, she said.

Automobile brand Renault's diamond-shaped logo has been redesigned for the ninth time. Undeterred, with no signature or typography, this new logo has been designed to live in movement.

"The flat treatment facilitates its animation, not only on video or digital media, but also on vehicles, for their welcome sequence. This new logo will be gradually applied to Renault vehicles. By 2024, the entire Renault range will carry this new emblem," said the company's design director Gilles Vidal.

Brands also aim to create more sustainable equity by becoming sensitive to customer expectations when it comes to service. IPO-bound airline Go Airlines has rebranded its carrier GoAir as Go First with a new logo and tagline. The airline where you come first. The aim is to attract young flyers as Go starts to operate the carrier in an ultra-low-cost model.

Consumer goods giant Reckitt Benckiser Group removed Benckiser from the logo, making it simple and easy to recall. However, Reck-

it continues to use what it calls its "energy Pink," the brand's primary colour signifying its perpetual energy.

"Retaining pink also helps shift the brand perception towards a young and vibrant space," said Ashwini Deshpande, co-founder and director at design agency Elephant Design.

Kia India has dropped the word Motors from its name. The auto firm has made a dramatic change from its existing logo and this time made branding easier. "Its new logo has all three letters attached to each other. Just one piece to be put on vehicles instead of three separate letters and ellipse where spacing and alignment

JK LAKSHMI CEMENT LTD.

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2021

Sl. No.	Particulars	₹ in Crores					
		Quarter ended		Year ended		Year ended	
		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Total Income from Operations	1,424.32	1,238.34	1,171.41	4,723.44	4,384.07	
2	Profit before Interest, Depreciation & Taxes (EBITDA)	318.47	248.52	232.22	1,811.32	844.86	
3	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax and Exceptional Items)	244.11	143.28	148.56	980.83	398.25	
4	Net Profit/(Loss) for the Period before Tax (after Exceptional Items)	286.87	143.27	148.56	958.86	364.19	
5	Net Profit/(Loss) for the Period after Tax (after Exceptional Items)	159.13	118.83	38.53	421.12	222.94	
6	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	154.58	114.19	39.27	407.81	244.48	
7	Equity Share Capital	58.95	58.95	58.95	58.95	58.95	
8	Other Equity				2,633.77	1,628.09	
9	Earnings Per Share of ₹5/- each)						
	Basic:	12.99	8.96	8.43	34.45	21.08	
	Diluted:	12.99	8.96	8.43	34.45	21.08	

Notes:
 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 27th May 2021.
 2. Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(g) of SEBI (LODR) 2015.

Particulars

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Turnover	1349.11	1213.46	1063.88	4450.11
Operating Profit (EBITDA)	795.10	212.46	244.59	884.32
Profit before Tax (before Exceptional Items)	217.45	127.15	151.56	527.51
Profit before Tax (after Exceptional Items)	186.31	127.15	151.56	496.93
Profit after Tax	136.13	108.21	106.75	380.82

3. The above is an extract of the detailed Form of Quarterly and Year ended 31st March, 2021 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 53 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone & Consolidated Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.sebiindia.com and www.sensibid.com and also on Company's website at www.jklakshmicement.com

Place: New Delhi, India
 Date: 27th May 2021

V.K. Paul
 (Vice Chairman & Managing Director)

ADIN OFFICE: NEHRU HOUSE, 4, BANAJIUR SHANJANAR MAIN, NEW DELHI - 110002
 REGD. OFFICE: JAYAPURAM - 397113, DISE, SOROLI, RAJASTHAN
 WEBSITE: WWW.JKLAKSHMICEMENT.COM | E-mail: jkl.investor@jkl.com | Fax No: 91-11-2627-3222 | CIN: 1206992/SH/PL/0116517

INDUS TOWERS LIMITED
(FORMERLY BHARTI INFRASTRUCTURE LIMITED)

CIN: L64201HR2006PLC073821
 Regd. Office: 901, Park Centre, Sector 30, NH-8, Gurgaon, Haryana - 122001
 Tel.: +91-124-4324369, Fax: +91-124-4310580
 E-mail: compliance.officer@industowers.com Website: www.industowers.com

NOTICE
Transfer of equity shares of Indus Towers Limited (formerly Bharti Infratel Limited) ("Company") to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"), the Act and the Rules provide for the compulsory transfer of equity shares, in respect of which dividend remains unpaid/ undivided for a period of seven consecutive years or more, to IEPF.

Adhering to the aforesaid requirements, the Company is communicating individually to such shareholders whose dividends remain unpaid/ undivided for seven consecutive years commencing from the financial year 2014-15 (merin Dividend 2014-15) and the financial year 2015-2014 (Final Dividend 2015-2014), requesting them to claim the same by August 22, 2021 and September 9, 2021 respectively, by following the procedure laid down in the correspondences being sent to them.

Please note that as the last date to claim the dividend for both the payouts are in close proximity, only one notice is being issued in this regard covering both the events. Though the last date to claim the dividend is August 22, 2021 and September 9, 2021 for Interim Dividend 2014-15 and Final Dividend 2015-2014 respectively, the dividend being earlier August 22, 2021 would be considered as the date for transfer of shares of such shareholders whose dividends remain unpaid/ undivided for seven consecutive years.

Please note that due to COVID-19, the postal services are not fully functional, and it may take time to dispatch the individual communication being sent by the Company. Hence, in the interest of the shareholders, the email communication being sent to these shareholders whose e-mail ids are registered with the Company. The shareholders who do not have their e-mail ids registered may note that the requisite details of such shares which are liable to be transferred to IEPF along with the procedure for claiming the same, is uploaded on the website of the Company as stated hereunder. In the absence of the receipt of a valid claim by the shareholders within the mentioned timeframe, the Company will transfer the said shares to IEPF.

Further, the shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may please note that the company would be issuing new share certificates in lieu of the original certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer in the DEMAT accounts opened by the IEPF Authority with NSDL and CDSL. Upon successful transfer of original certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-recognizable. In case of such shareholders, holding shares in DEMAT form, the transfer of shares to IEPF account of the IEPF Authority as indicated hereabove shall be effected by the Company through the respective depositories by way of corporate action.

The shareholders may note that the Company has uploaded the updated list of such shares on the website of the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

Further dividend/benefit, if any, in respect of shares so transferred shall also be credited to IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the dividend and the shares transferred to IEPF. On transfer of the dividend and shares to IEPF, the shareholders may claim the same by making an application to IEPF in Form IEPF-5, as per the Rules. The said Form IEPF-5 is available on the Company's website and on the website of IEPF at www.iepf.gov.in

In view of the above, the concerned shareholders are once again requested to claim their unpaid/ undivided dividends on receipt of this Notice, within the aforesaid timelines, by submitting written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque, self-attested copy of address proof and the original uncashed dividend warrant (if any) or a duly filled and stamped Form IEPF-5 on the website of RTA and Company) failing which the Company shall, in adherence to the requirements of the Act and the Rules, transfer the shares on which dividend remains unpaid/ undivided for seven consecutive years to the IEPF Authority in accordance with applicable provisions without any further notice.

In case the shareholders have any queries, they may contact Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFN Technologies Private Limited, at their address Selenium Building, Tower B, Plot 31, 32, Gachowli, Financial District, Nanarkaganj, Hyderabad-500032. Ph. No: +91-40-67161738. Toll Free No: 1800-3036-001. E-mail: enward.rs@kfn.com. Website: www.kfn.com

Sd/-
For Indus Towers Limited (formerly Bharti Infratel Limited)
 Samriddhi Rodhe
 Company Secretary

Place: Gurgaon
 Date: May 20, 2021

